

प्रेस रिलीज

## स्वराज प्रो कंबाइन 7060 ट्रैक्ड हार्वेस्टर इस फसल कटाई के मौसम में पश्चिम बंगाल के किसानों को सर्वोत्तम पैदावार देगा

- नई विशेषताओं से सुसज्जित, स्वराज प्रो कंबाइन 7060 काफी टिकाऊ, शानदार प्रदर्शन करने वाला और ऑपरेटर के लिए आरामप्रद है
- कड़ी मिट्टी वाली जमीन के लिए विश्वस्तरीय ट्रैक्ड समाधानों युक्त यह हार्वेस्टर पैडी की फसल के लिए डिजाइन एवं तैयार किया गया है
- सर्वोत्तम कोटि के उपकरण और दमदार एवं किफायती ईंधन क्षमता वाले 72 एचपी इंजन से किसानों की आमदनी बढ़ाने का लक्ष्य

कोलकाता, 29 सितंबर, 2021: नया स्वराज प्रो कंबाइन 7060, जो स्वराज का ट्रैक्ड हार्वेस्टर है, पश्चिम बंगाल के धान के किसानों को बेहतर पैदावार, कार्य प्रदर्शन एवं आसान परिचालन के साथ सर्वोत्तम एकड़ उत्पादकता प्रदान करेगा।

इस नये स्वराज प्रो कंबाइन 7060 में नया पैडी कटर बार लगा हुआ है, जो सापेक्षतया निम्न लागत पर कुशलतापूर्वक स्लीपिंग क्रॉप को काटने में भी सक्षम है।

धान और सोयाबीन की कुशलता से कटाई के लिए डिजाइन और विकसित स्वराज का नया कंबाइन हार्वेस्टर अनाज की कटाई, थ्रेसिंग और फसल को कुशलता से कम से कम अनाज की हानि और टूट-फूट के साथ सक्षम बनाएगा।

मजबूत, शक्तिशाली और किफायती ईंधन क्षमता के लिए तैयार, स्वराज प्रो कंबाइन 7060 विश्वसनीय है और इसमें 72HP @ 2300rpm इंजन लगा है। मजबूत लो रेशियो रिडक्शन गियर बॉक्स और लो स्पीड, हाई टॉर्क हाइड्रॉलिक मोटर के साथ, यह उत्पाद के लंबे समय तक रहने की गारंटी देता है। सुरक्षा पर ध्यान देने के साथ, हार्वेस्टर में ओवरहेड गार्ड भी लगा हुआ है ताकि खेत में पड़े बिजली के तारों के झटके से बचा जा सके।

पेशकश के बारे में बताते हुए, एम एंड एम लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी - स्वराज डिविजन, हरीश चह्माण ने कहा, "फसल कटाई की कम समयावधि और कृषि में टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के साथ, हमें

खुशी है कि हम पश्चिम बंगाल के किसानों के लिए महत्वपूर्ण समय में स्वराज प्रो कंबाइन 7060, ऑनग्राउंड सेल्स, सर्विस एवं स्पेयर्स सपोर्ट के साथ उपलब्ध करा रहे हैं। हमारा नया उत्पाद अधिकतम उत्पादकता, गुणवत्ता एवं पैदावार के साथ-साथ न्यूनतम बर्बादी एवं प्रोडक्ट डाउनटाइम प्रदान करेगा और इस प्रकार, किसान के लिए अधिकतम आमदनी सुनिश्चित करेगा।"

स्वराज प्रो कंबाइन 7060 को स्वराज के व्यापक खुदरा और सर्विस नेटवर्क के माध्यम से पूरे पश्चिम बंगाल में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। यह हार्वेस्टर कई बैंकों और वित्त कंपनियों से उपलब्ध वित्तपोषण के साथ एक आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। गीले और नरम क्षेत्रों के लिए, स्वराज प्रो कंबाइन 7060 उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना में भी उपलब्ध कराया गया है।

स्वराज प्रो कंबाइन 7060, स्वराज के बेजोड़ और विश्वसनीय हार्वेस्टर की विरासत में एक जुड़ाव है। लगभग चार दशक पहले अपना पहला हार्वेस्टर लॉन्च करने के बाद, आज स्वराज भारत में हार्वेस्टर तकनीक में अग्रणी है, जिसके पास पंजाब के मोहाली में निर्मित और विकसित व्हील वाले, ट्रैक किए गए और ट्रैक्टर माउंटेड हार्वेस्टर के समृद्ध उत्पाद पोर्टफोलियो हैं।

### **About Swaraj**

Swaraj Tractors a division of Mahindra Group is India's second largest and fastest growing tractor brand. Established in 1974, based in Punjab, the grain bowl of India, Swaraj is a brand that is made by the farmer, for the farmer as many of its employees are also farmers. They bring real world performance and create an authentic, powerful product with assured performance and enduring quality, designed with one purpose – enabling the Indian farmer to Rise. Swaraj Tractors manufactures tractors in the range of 15HP to 65HP and also provides complete farming solutions.

Learn more about Swaraj Tractor on [www.swarajtractors.com/](http://www.swarajtractors.com/)

### **About Mahindra**

Founded in 1945, the Mahindra Group is one of the largest and most admired multinational federation of companies with 260,000 employees in over 100 countries. It enjoys a leadership position in farm equipment, utility vehicles, information technology and financial services in India and is the world's largest tractor company by volume. It has a strong presence in renewable energy, agriculture, logistics, hospitality and real estate.

The Mahindra Group has a clear focus on leading ESG globally, enabling rural prosperity and enhancing urban living, with a goal to drive positive change in the lives of communities and stakeholders to enable them to Rise.

Learn more about Mahindra on [www.mahindra.com](http://www.mahindra.com) / Twitter and Facebook: @MahindraRise/ For updates subscribe to <https://www.mahindra.com/news-room>

**Media contact information**

Arthur Serrao & Shruti Chhabra  
Communications Team  
Mahindra & Mahindra Ltd.

Email: [serrao.arthur@mahindra.com](mailto:serrao.arthur@mahindra.com)&[chhabra.shruti@mahindra.com](mailto:chhabra.shruti@mahindra.com)